ुक्षातानम् सार्थेकरम् भा भाषीतान् देवनम् वकम् एव सीमा वस और दलीर भूगणः O/O THE CHARMASION BY APPEAUS DESCRIBATION OF A LAMBE.

> (विहोस) जाता, जो एक क्षेत्र शहर है 2° 1 का . 657 €15006 हेर कोमी जिल्लामिड, Albert Course Ring Roots

> > บล*ะ*<u>โดส์ใชส์ได้สาร์ 367.10</u>1

Table 15 et val. 1925 ( = 2477030/24111117) Emil, wespredsoftal, cyrater in



<u>√ि.⊲28</u> इस्तान की दहना ५

अभीत : कहर हाला : Anteut y Fill Hou V2 (95/15V3Q/2017)

राज अधिर राज

Olf Oliveia #CAMO (Misses Block All Follow **≐**51900

Linde: ALC COLORS Y

अभीता आदिश सम्बद्ध (Or tea in Arry ect 36 m)

## 格田\$4-70%(\*\*115-666)-大平P=P98-2.612(-1.9)

अस्त्राच्या स्टाब्स्टर

जारी पास के उन्हेंस -

25.05.001H

Care of Dede-

15.85 2014 Care of leading

Past 66, of Dr. Bulle's Single-Additional Discrease Consul (Tenouyee Services), Addocidated Zemai Cloff, Almyrdaliad

भविम्ह्या रुख्या १८३१ (१.५.६) (६०.८), १६० ८), १६० ५ १६, १८, १८, ५ ६ १ ६ ५ ५ ५ ६ १८ ४), रूपर एक्स्पर और दिवानर एड एक्स्पर के प्रमुख्या है। ही अलब्द विदेश के सह बीटिया प्रस्थाता संपर्धर अञ्चलकात् क्षेत्रक राजित को क्षिण । विधानका १८६८ की जायका राज्य भूत्राह १,५३ आधीकाम (१<sub>९९ क</sub>ा जात् पर कर जीतमेंत दर्ज की पर अपकों के कर दूर्ण में भारत्य समित् **यहने के एक्टर में** अनुसूत प्राधिकाई दे, एक हा विद्राल किया गता है.

Luptummes, a base at bounded on the Pay-2017 (10 M) of the 17 (0 M) follows with Hoard's Order No. 90/2017 SP Laye (46, 100 for the two domain, Schild cost through the pay-3 M and a proposal Administration of the payer actions. Administration of the payer actions a Administration of the payer actions and the payer actions of the payer actions and the payer actions are payer as the payer actions as the payer action of the payer actions are payer as the payer action of the payer actions are payer as the payer action of the payer action of the payer action of the payer actions are payer actions as the payer action of the Appellon. Authority for the proposed massion context in inspire or expect a first prose-cost or to obtain that the App. 1944 and Section Short he Finance way, 1894.

त्राच कारकता संस्कृत ता नुसर जा काल भागवार भागवार, भागवार, वैश्वतिय कर को भूकत स्थापक करवार है जासना है। एक विश्वति स्थापक विश्वति कालिया, जाने प्राप्त का स्थिति है।

 $\lambda_{\rm LMLM}$  but of also in increasions from exercit by Addrenot/Joint/Evante/Addison... Commissioner Sentral Indian : Buryon, have Right of Commission (Commission)

अमिनिकारी के अंतिवादी का तक कर कर है। हा same to encourage of the Appetits of y & Kenggandana क

M/s Ecialism Power Electronics. Prop. Sort Protein Station on Profile Post No. 64, 644,948 Sealery, Summi Dearn Road Sugar,

्रम् आर्थिशास्त्रात्र हो। ज्युकित कोहे। प्रक्तिः निर्माविक्षेत्र करिका है। प्रकार प्रशासेकरमा है सार्वेशका के सरमान भेगाः । राज्य पर सामान है।

And the same suggests of this function. Appendix and as well to the  $\alpha$  , is violated positively in the language form.

ों का कारक कम्हीर प्रधान करने । एक देशका अभिनेत्र एक प्रशासिक एक पिताल के भी क्षेत्र आहे. कारीब एस क्षित्र प्र नार्व नेवेंक । भी की अपने किसी के किसी का किस एक किस प्राप्त की एक की एक 85 की कार्य 10.

The APP TO SERVICE OF THE APPLIED TO SERVIC

वर्गित्रक एक्टाक्स से टान्ट्रेनिया सभी सामने जीता श्रेत्य, देखीच मुक्तक पान एवं मिलान परिसार स्थानमित्रको की विश्वति में 8, वर्ग कोलाने 8, वाज के प्रियम न दिश्ती, से विभिन्ने माहित है The specific trade of Charlest, Edward & Service for 8 stallars habitated 80 West में 6 % No. 2, 10 km transfers to the firm of matters to service stallars for its each only when

...प्रिकेटन परिचारक पार्क में जात. कर अपीती के १५ का भीप अधि अधिने भी । १५ कर कर में उत्तर प्राप्त प्राप्त एक इस्तराज भीजियेन स्थानुमधुकता ुर्भार्युक्त, १० नाम्यक (द्वीर भीजिस) , अस्त्रीमण्डास, बहुमारी ४०-मा अपी ::: તો, મહારાદ કરવનારા એ ક્લાં આવે તાલું છે.

The factory tropping the effect unstains is some Schreibert in Applitude Tribund (0587ATrib). See The Control to State the Control to State the See The Control to part that the State the See The See The Control to part that the State the See The See The See The State that the

The copied casion publication of local Section 3.5 of the Finance sign, 1604, to the App. Into Indianal local to the investigation of the section of the sec

ਉਨਦਾ ਕਾਈਜਿਆ , 100 ਕਿਹਾ ਸਿਹਾ 25 ਪੈਸੇ ਤਾਮਨੇ ਪਦੀ ਸਕੇ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਸਾਹਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਰੋਗਾਰਾ ਹਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰਮੀ ਕਾਇਸ ਸਿਹਾਦਰ स्थित, तरे, 1991, के निवस ५(2) एक श्र(26) के नहत् कीक्षेत्रित प्रकार १ ए जाने की का उनेकी एक उन्नक साथ। भारतका, तेप्रहार कियान कुन्न प्रदेश माध्यक १ भारत, वे तीप अभार १४० द्वार व्यक्ति प्रदेश की भागियी संस्थान की १४वर्ग से एक १९५ जाणिक जिल्ली विभिन्न के सक्ति कुन्न है कि जानुका अध्यक्ति अध्यक्ति ्राच्या कर कार्याच्या विकास कर के प्रतिकार कार्याच्या कर कार्याच्या कर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्या विकास प्राप्त क्षेत्रक क्षेत्रक को प्रतिकार बागामाध्यमम् यस भावतम् अस्त स्थानिक स्थानिक के विकास कार्याच्या स स्थान वर्षि भाषास्य हाँ अस्त स्तरी हरेगा।

The appending star action of the plant post of the applicance of the Finance Act 100 is shall be action for the action of the appending the plant of the action for the action of the ac

भीना भूमार प्रक्रिय क्यांच भूमा एक भैद्यांच अवस्थित राष्ट्रियत्त्व (स्ट्रश्ट) ये पहित्र स्थित के रायार से किराय पुष्यद्व सन्द्र के सिंहिया में भेक्क के पुरत् 35,44 के इंडियेन्ट्र के क्षेत्र क्षित्रीय के सिंहिया (1564 कि सक 83 व त्रात्यक्ष का कार्या के प्रति है। इस स्थिति के पाँचे अभी कि विविद्या के कि अपने राज्य के स्थापन के स्थापन के प स्रोतिकत्र के अन्य की भूँ साथू पूर्व किंद्री, इस स्थिति के पाँचे अभी कि विविद्या के कि अन्यति स्वयंत्र स्थापन शुक्रकश्चा कर मेरा के 10 क्षेत्रिक (10%), कहें सक कहें जुमील क्षित्रीत है, या जुमश्च कर केरल स्थित क्षित्रीक है, ता शुक्राध कि बाद के तकी कि का करा कर कर के जा कि दश्त करी आकरिक हम सकि शुक्र ... १५७ स : विक **-** (1)

বিলাগৈ এর মাধ্যমান শ্রাপ্তালের ও স্থার্থার প্রতা শিক্ষার পুরুষে নার্বিলর প্রান্ধার বি

प्रमुख्य के कि कार्य करा देन हो जा कि की जार पानत शरीत अनुकृष्ट पाना जोडमायान के मोदम के के भागता हुन् क्लम

ନ୍ଦିର୍ଗ ଅନୁ ବିଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର ବିହର୍ଷ ହେଉଛି । ଅନୁ ନମ୍ବିତ ଅନ୍ତର୍ଜ କରି । ଅନ୍ତର୍ଜ କିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଜ କ त्रका । वह प्रत्याच्या । वह प्रत्याच्या चार्चा वह प्रत्याच्या । वह प्रत्याच्या विकास । विकास विकास स्थापना विकास स्थापना स्थापना । विकास विकास स्थापना स्थापना ।

per variety is on the effect of 1. P4 2可多点 形式 化 可能。 Company appeal is so higher state 1. COMMON product State of Calculation Company as Active 1. Add when the active applicable is contract that contract State of Calculation State of the Calculation of Calculation of State of the Calculation of State of the Calculation of the Calculation of the Calculation of the Calculation of Calculation of the Calculation

The formal of the first section of the contract of the contract of the first section of the first section of the contract of the first section of the first


 $\Box 1$ 

- ি হৈছে একেন কী ঘুৰ বিশ্বিপ কাৰ্ট্যৰ : Revietno applica fine to Covernment of Pacific ্য প্ৰতিয়ে কৈ কৃষ্ট্ৰিয়া কৰিব। কিন্তালিকৈ সাম্প্ৰী ই স্কুল কুলে কুলে এটি চিন্তু এই এই বিশ্বি এইচা সিংকাৰ মুক্তাৰ কেন্দ্ৰ আইন কৰা আহিল, মানা একে কুম্বটিকৰা এটিক ইংলা টিকে এই এই এই এই বিশ্বান লিটা টিকাটিল এই কিন্তু কি অনুক্ষিত এই আইন কিন্তু কি উদ্ধান কৰা কাট্টিটি কিন্তু কৰিব কৰা জিলাই কিন্তু কি আইন কিন্তু কি তিন্তু কিন্তু কৰা কৰিব ইন্তু কৰা কৰা কিন্তু কি আইন কিন্তু কি আইন কিন্তু কৰা কৰা কিন্তু কৰে কিন্তু কিন্তু কৰা কিন্তু কিন্তু কৰা কিন্তু ইন্তু কৰা কুম্বটিক কৰা কিন্তু কৰা কিন্তু কিন্তু কৰিব কিন্তু কৰা কিন্তু কৰ
- and the molecular design of the second of t
- (9) ब्राइट के नहर निर्मा अन्य रहाई का एकति एक क्षेत्रांक में विक्रमान में विक्रमान करते साम कर बंद रहें उन् उन्होंने उत्पाद कुछ के कृत दिवेदों के उपना में, हो भाग के बहुद किया सबद मा कीन को दिना की नांचे हैं। In page of motivate of a few of express to goods exposited to act of pure or stations mustake that of one of one of the pure of the proposition and or according to a supplied of supplied or supplied to a supplied or a supplied or according to a supplied or a supplied or according to a supplied or according to a supplied or a supplied
- .—) । এটি জন্ম পুনুষ্টাৰ পুনুষ্টাল কিং জিলা জনল লাল্ড লীগাল ।। মতে লাল্ড লাল্ড বিশ্ব নাম নিৰ্দ্দ In house of second system (activity) (activity) (activity) (activity) (activity) (activity)
- ित्री शांतिकित. प्रभाव के उत्पादन का के कि अस्तान के तीत जा पूछ्य करोड़ इस अधिकेन पर इसके विभिन्न परिश्वित परिश्वित विभिन्न परिश्वित के सहस्र परिश्वित की पहें हैं और ऐसे अधिकार की अधिकार कि परिश्वित के इसके कि उत्पाद कि अधिकार की आई नहीं के उन्हों के कि अधिकार के कि उन्हों के कि उन्हों के अधिकार के अधिकार के कि अधिकार के अध
- b) 2억원 countries do al alignita is viver 100cc up. 다 한 energy contain strate (1500) 'attainment 2000, 'at the energy is profit (2000) 'attainment (1500) 'attainmen

Ę

ч

- ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹੌਵ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਕੇਸਿੰਗ ਜਿਵ ਪੰਜਾਬਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਇਦ ' ਜੋਈ ਉੱਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰ ਸੇ ਕਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬਜ਼ਾ ਸਿਹਾ ਸ਼ਾਹੌਵ ਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਹਨ। ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾਮ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸੰਗਰ ਮਹੀ ਜੋ ਕਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸਿਹਾ ਸੰਗਰ ਸੰਗਰ ਸਿਹਾ ਸਿਹਾ ਹਨ। The new pieces are new for season to see composition by a fine of the season through a season the most season for the season for the season for the season for the season of the season for th
- (A) दृष्टि कुछ एक्ट्रिय से एड् गुण्य (प्रदेशी वर समावण है हो एक्ट्रिय मृत आहेर के हिए एक्ट्रिय प्रदेश कर मृत्य के उपने के हैं। अपने से सिंह क्ष्म के सिंह प्रदेश के स्थान के लिए प्रदर्भित के एक्ट्रिय क्ष्म हैं। अपने से सिंह प्रदर्भित के सिंह प
- िया प्रत्य, केस्टी कर ए प्रत्य के साम सकता स्थापतिक । (सर्वे <sup>1</sup>ेंग) 'बेंग्सावरी, 1992 से आति एक अस्य सुर्वेदात स्थाने की मार्टनिया करता वर्ते विचार के की भावता अन्योदि किया के कि , Attendence state motion to the other according to some of attended and transmitted administration to Customa, Excise 1.14 Section of the following the terms of the sound of the
- ्षेत्र, परना अधियोग करि नक्षेत्र के उत्थान दाखिल करते हा उत्धार क्षिण क्या का किन्त के शब्द किन्त प्रतिक्रिको क स्थित क्षित की पोधिक के नेवल्ल्ड के के अधिकार प्रतिक्रिक करते हैं। उत्पादकों के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक प्रतिक्रिकेट के प्रतिक्रिक प्राप्तिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक के प्रतिक्रिक



over trishnal Pomer like copies. Plot No. 70, Answer: Pagar Scotco, STO Ross, Towel Ande, Phase eyer (there is a encellened in such the appealant front fits appealing tion 0.00 for 60.00/VTAV/1. W/2015- 7 dated 60.00/VTAV/1 (the encellages, 100, phaseagor) transport for and encelled the second by the Arcists in Commissioner (0.00 encellages, 100, phaseagor) transport in reference that second approximation of the second second encellages.

- 2. In table states, the facts are that all ting the course of tine to was element that the appellant had been producing a proposed and no response and repair  $\rho_0$  as even to the belief Barbways since 2000 for and also were providing construction screece to the Comma Salt was Marine Chemicals Research traditive for construction of small poundary was and the  $\rho$ -behalf totaring service to the religious three. The probabilitied nation some partners of service tax  $\rho$  and the religious based on the compact  $\rho$ -behalf produced by the appellant  $\rho$ -back the distance of wasted to the interpretability the religious of salt  $\rho$ -back decomposition and wasted to make an interpretability and the vertical 2006-04 (Course to Salt  $\rho$ -back and  $\rho$ -back  $\rho$ -back
- 5. Feeling appreved, the wood land had filled the appeal on the following grounds::
  - 4 Table the softener provided were related to the Western Barkways. These records compared out on the basis of the "Contract/Agree" and/Yor ky Dr. = 1. These very expense in relating to the maintenance of the incorporate supported to the passer generological in last cases. Afterwarder, exactler AC coaches upon the AC coaches. The appellant had to be incorporated in the half of the half of these in the manner that the said it rices had been distributed in cache and exactly possengers traveling in the laboration provided by the relationship between the basis of the passerigers;
  - i.e., the word and the last introspect the sold of ticles and from fore, the work randed
    and the title appeals in is not followed the previous of TMS: power Recrupment and
    the objection.
  - The indistance the samples provided by the Supernment forcing the continuous of the terminal sample of the specialist is the Westvern Sellarys is working under the centrominal of the force matter (115).
  - 2. That may a pressure has been presided white deciding the show cause notice as the solegilled archimed service has at Rs. 8,24,867/1 was unly portaining to the "Westym hardway" and not in respect on the as called construction work and therefore the impropred authoris out properland again.
  - (Fig. (1999) relief to this judgement of the case law via British Enterprises (75, 170) report—o in 2010 (NT) 282 (CSSIAI).
- $a_{ij} = -correctly September was to Delta 10.05.2213. Show (ushar Schhafter Becke, Proposition appears) on helpfill <math>a_{ij}$  to appear and relicitated the submostropy made  $a_{ij}$  be appearation under  $a_{ij}$





- 5. The appeal pass 55 the God the Garminson of (Appeals) (Appeals) for (Appeals) is to (Appeals) as the property of the content of (Appeals) and Appeals) of Appeals (Appeals) and Appeals) of the Appeals of the Appeal
- The appellant has set the condonation of color in fling the appeal. There is a color of Siddly and the appeal was filled byte from the normal period of 60 days due to massive explained by them in the copylination for condonation of delay and the appellate outhority is empowered under section. Polloff by Central Exception, 1944, to condona the color of further 20 days are not part, accordingly, incorporative same. Condening the delay, increase to decide the moin posed on ments.
- 7. That a carefully game through the letts of case, the grounds problemed in the appeals 3.12.132 attentished mode by the specifical The justicity decided in the present case is to determine the consect in refue taxified billity from the problem.
- If find that the adjuticating authorite relice on the standary delicities of Tavalda services in relation to 10 Manipower Recruitment or Supply Agency). Four Door Calking services and "Works Contract services" and the other the services can led out by the appellant clearly [9] within the soulct of tavable service and occordingly continued the demons with independ and genelity. Further the adjudicating authorite has that the above any had never field also return during the entire period of 5 years and thereby subpressed these facts from the department.
- Our Third constant but to do the library bad just manager, the bein engage of the broken interesting in the day. At majority, two tier set touches and three tental process and therefore, the work equivalent of the appoillant is not falling under two preview of "Memories". Describ he dead Supply Agency". The strong library to each describe and to provide the conflict of the constant described and to provide the description of the constant described and to provide the description.

Whereprese the column is a significacy of the conjugation engaged a country and reverse the city is including to an expensive for the columns of the engage of incomments. For any otherwise, for any other many f(x) within the f(x) of the conjugation f(x) and the conjugation f(x) is the conjugation of the con

Here, find the service in wided by the gape antine information, we togethat encant for Indian surjectors clearly falls within the animal find approved two contents of English Agency service, which is a together service chosens on the SSP  $(S_i^*(k))$  of the Fine i e Aut, 1944.

1) If you is a social phoble the rader of colocitating authority confirming the demand of straight (as its the country) producing subsidised mealing Railway staff which falls within the smooth of Coupling services and sended proving to the work of construction of walls to the Court algorithms device the sended in the training which court followers in the sended in the show cruse onto a hard Sended Sended

- The About optical the order of imposition of private of 0s, 10,000/s conforfaction 77,71 of the Final set of 1,700 for a following of 5 is returned to provide a model (e-there also in a for 1,100 for a following of 1,100 for 1
- 17. In view of coose, the implimed differential 08.02.2017 is upb-  $\eta$  and coose it are condi-
- 13 The expect filed by the graph last standic sposed on maliced forms.

सस्यापन, १८८७ जिस्स दे, स्वारेलिक अडोस्ट्रा (४-किस) - የሚመንፈት መስፋት ማ (Be Tallo Kylkolla) ADDITIONAL PRICITES መካቸርት፤ ሲባት ኤ... AZULAHN BOABAD

Use: 08.2018

LING VOUSHRA 1900 S

## DY MIMOL

-...

D'Més Kira i a Pesan Biodrana. In optishe Tusher Sakkaram Rodice. Pinn No. 76, shi yang Sagor Sasor V. R. 10 Road, Lewel Cools, Ekuanagan.

1940: Disma Power Exploration Proposition aster savinam Rocks. Plet No. 14, 2 always Seed. 5. Secol, Oniversity.

## церуга с

**過考** Thy Char(Charmiss ortal CNIST & Central Excise, A**hm**edabad Zrais)

- to the commissioner, \$687 \ Commissioner & exagan
- $\mathfrak{F}=\mathsf{Th}: 4\text{--}\mathsf{istant}$  (form) satisfier (Aff), 0.061, & Certesl Excise HO, Dhovo, gat.
- Reache DONAL Commission. Systems, Clist's Simological

اران کاری المان کاری ا

5 7 2

